



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 190]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2002/फाल्गुन 2, 1923

No. 190]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2002/PHALGUNA 2, 1923.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2002

का. आ. 225(अ).—पेटेन्ट नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उस धारा की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो सकेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेन्ट नियम, 1972 के अध्याय 2क में, नियम 20ध के उपनियम (6) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) जहां आवेदक ने अनुच्छेद 2(xi) में निर्दिष्ट पूर्णिकता की तारीख से उन्नीस मास के अवसान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के प्रयोजन के लिए भारत का ध्यान नहीं किया है, वहां पूर्णिकता की तारीख से इकतीस मास होगी; और”

[सं. 14/8/2001-पीपीएंडसी]

ए. इ. अहमद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के का.आ. 301(अ), के अधीन अधिसूचित किए गए थे और बाद में उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. का.आ. 2908 तारीख 31 जुलाई, 1976;
2. का.आ. 3598 तारीख 28 अक्टूबर, 1977;
3. का. आ. 468(अ) तारीख 26 जून, 1992;
4. का. आ. 889(अ) तारीख 23 नवम्बर, 1993;
5. का. आ. 1029(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 1998;
6. का. आ. 411(अ) तारीख 2 जून, 1999;
7. का. आ. 1148(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1999।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2002

S.O. 225(E).—The following draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 1972, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970) is hereby published, as required by Sub-section (3) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date the copies of the Gazette containing the notification are made available to the general public,

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Draft Rules

1 (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 1972, in Chapter IIA, for clause (a) of sub-rule (6) of rule 20D, the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) Where the applicant has not before the expiration of nineteen months from the priority date referred to in Article 2(xi), elected India for the purpose of the use of the result of international preliminary examination, thirty one months from the priority date; and”

[No. 14/8/2001-PP&C]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.

Footnote.—The principal rules were notified vide number S.O. 301(E), dated the 20th April, 1972 and subsequently amended vide :—

- (i) S.O. 2908 dated the 31st July, 1976;
- (ii) S.O. 3598 dated the 28th October, 1977;
- (iii) S.O. 468(E) dated the 26th June, 1992;
- (iv) S.O. 889(E) dated the 23rd November, 1993;
- (v) S.O. 1029(E) dated the 2nd December, 1998;
- (vi) S.O. 411(E) dated the 2nd June, 1999;
- (vii) S.O. 1148(E) dated the 19th November, 1999.